



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक ५]

गुरुवार, फेब्रुवारी ८, २०२४/माघ १९, शके १९४५

[पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, MAHARASHTRA STATE**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 8th February 2024.

NOTIFICATION

No. BIE-2024/C.R.83/24/XXXIII.—In pursuance of section 39 (1) and section 56, 21 and 22(1) of the Representation of the People Act, 1951, the following are published for General Information.

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]**

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 08th February, 2024**Notification**

S.O..... (E).— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:-

TABLE

Sl. No.	Name of State	No of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andhra Pradesh	03	02.04.2024
2.	Bihar	06	02.04.2024
3.	Chhattisgarh	01	02.04.2024
4.	Gujarat	04	02.04.2024
5.	Haryana	01	02.04.2024
6.	Himachal Pradesh	01	02.04.2024
7.	Karnataka	04	02.04.2024
8.	Madhya Pradesh	05	02.04.2024
9.	Maharashtra	06	02.04.2024
10.	Telangana	03	02.04.2024
11.	Uttar Pradesh	10	02.04.2024
12.	Uttarakhand	01	02.04.2024
13.	West Bengal	05	02.04.2024
14.	Odisha	03	03.04.2024
15.	Rajasthan	03	03.04.2024

[F.No.H.11024/01/2023-Leg.II]



(Diwakar Singh)
Joint Secretary & Legislative Counsel

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 8 फरवरी, 2024

अधिसूचना

का.आ. (अ).-- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं :-

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	03	02.04.2024
2.	बिहार	06	02.04.2024
3.	छत्तीसगढ़	01	02.04.2024
4.	गुजरात	04	02.04.2024
5.	हरियाणा	01	02.04.2024
6.	हिमाचल प्रदेश	01	02.04.2024
7.	कर्नाटक	04	02.04.2024
8.	मध्य प्रदेश	05	02.04.2024
9.	महाराष्ट्र	06	02.04.2024
10.	तेलंगाना	03	02.04.2024
11.	उत्तर प्रदेश	10	02.04.2024
12.	उत्तराखंड	01	02.04.2024
13.	पश्चिमी बंगाल	05	02.04.2024
14.	ओडिशा	03	03.04.2024
15.	राजस्थान	03	03.04.2024

[फा0 सं0 एच.11024/01/2023-वि0.।।]


(दिवाकर सिंह)

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्श

To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section -3 (iii) Dated 08th February, 2024
To be republished in an Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 08th February, 2024

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated: 08th February, 2024

Magha 19, 1945 (Saka)

NOTIFICATION


No. 318/CS-Multi/2/2024(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 08th February, 2024 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

S.No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	3
2.	Bihar	6
3.	Chhattisgarh	1
4.	Gujarat	4
5.	Haryana	1
6.	Himachal Pradesh	1
7.	Karnataka	4
8.	Madhya Pradesh	5
9.	Maharashtra	6
10.	Telangana	3
11.	Uttar Pradesh	10
12.	Uttarakhand	1
13.	West Bengal	5
14.	Odisha	3
15.	Rajasthan	3

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election;
- (a) the 15th February, 2024 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 16th February, 2024 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 20th February, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 27th February, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 29th February, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed;
- and
- (B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

By order,


(SUMAN KUMAR DAS),
Secretary to the
Election Commissioner of India.

भारत के राजपत्र के भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 08 फरवरी, 2024 को प्रकाशनार्थ।
राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण
अंक में 08 फरवरी, 2024 को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 08 फरवरी, 2024

माघ 19, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2024 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 08 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1.	आंध्र प्रदेश	03
2.	बिहार	06
3.	छत्तीसगढ़	01
4.	गुजरात	04
5.	हरियाणा	01
6.	हिमाचल प्रदेश	01
7.	कर्नाटक	04
8.	मध्य प्रदेश	05
9.	महाराष्ट्र	06
10.	तेलंगाना	03
11.	उत्तर प्रदेश	10
12.	उत्तराखण्ड	01
13.	पश्चिम बंगाल	05
14.	ओडिशा	03
15.	राजस्थान	03

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 15 फरवरी, 2024 (गुरुवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार), और
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 29 फरवरी, 2024 (गुरुवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,



(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

To be published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part-II, Section -3 (iii) Dated 08th February, 2024
To be republished in an Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 08th February, 2024

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated: 08th February, 2024

Magha 19, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2/2024(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;


in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 08th February, 2024: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Sri M. Vijaya Raju, Joint Secretary to Andhra Pradesh State Legislature	Sri P.V. Subba Reddy, Joint Secretary to Andhra Pradesh State Legislature
Bihar	Sh. Raj Kumar, Secretary, Bihar Legislative Assembly	Sh. Asim Kumar, Director, Bihar Legislative Assembly
Chhattisgarh	Sh. Dinesh Sharma, Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly	Sh. Dinesh Trivedi, Deputy Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly
Gujarat	Mrs. Reeta Mehta, Joint Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Mr. M. H. Karangiya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
Haryana	Sh. Saket Kumar, IAS, Managing Director, Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam Ltd.	Sh. Gaurav Goyal, Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Himachal Pradesh	Shri Yash Paul Sharma, IAS, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha	Sh. Jitender Singh Kanwar, Under Secretary (Legislation) Himachal Pradesh Vidhan Sabha
Karnataka	Smt. M.K. Vishalakshi, Secretary, Karnataka Legislative Assembly	Shri. B.S. Mahalingesh, Director, Karnataka Legislative Assembly

Madhya Pradesh	Shri Sanjay Gupta, IAS, Labour Commissioner, Vidhan Sabha Bhawan, Arera Hills, Bhopal	Sri Bhagwatdeen Singh Paraste, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Sabha Bhawan, Arera Hills, Bhopal
Maharashtra	Sh. Jitendra Bhole, Secretary (1) Incharge, Maharashtra Legislature Secretariat	1. Shri Ruturaj J. Kudtarkar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Smt. Poonam H. Dhage, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Rajasthan	Shri Mahaveer Prasad Sharma, Principal Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	Shri Suresh Chand Pareek, Assistant Secretary [General], Rajasthan Legislative Assembly
Telangana	Sri Ch Upender Reddy, Joint Secretary, Telangana State Legislature	Sri A Sudhakar, Assistant Secretary, Telangana State Legislature
Uttar Pradesh	Sri Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow	Sri Ram Autar Singh, Joint Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow
Uttarakhand	Shri Chandra Mohan Goswami, Joint Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly	Shri Mayank Singhal, Senior Protocol Officer, Uttarakhand Legislative Assembly
West Bengal	Shri Sukumar Ray, Principal Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary-cum-Committee Officer, West Bengal Legislative Assembly
Odisha	Shri Abanikanta Pattanaik, IAS, Additional Secretary to Government, Steel & Mines Department	Sri Bidyadhar Majhi, Deputy Secretary, Odisha Legislative Assembly

By order,



(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary to the
Election Commission of India

भारत के राजपत्र के भाग-(ii), खण्ड-3(iii) के असाधारण
अंक में तारीख 08 फरवरी, 2024 को प्रकाशनार्थ
राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण
अंक में 08 फरवरी, 2024 को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 08 फरवरी, 2024

माघ 19, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2024 (2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 08 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-


- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी(यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	श्री एम. विजय राजू, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल	श्री पी. वी. सुब्बा रेड्डी, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल
बिहार	श्री राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा	श्री असीम कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा
छत्तीसगढ़	श्री दिनेश शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री दिनेश त्रिवेदी, उप सचिव, छत्तीसगढ़, विधान सभा
गुजरात	श्रीमती रीटा महेता, संयुक्त सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय	श्री एम. एच. करंगिया, उप सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय
हरियाणा	श्री साकेत कुमार, भा.प्र.से., प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	श्री गौरव गोयल, उप सचिव, हरियाणा विधान सभा सचिवालय
हिमाचल प्रदेश	श्री यश पॉल शर्मा, भा.प्र.से., सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	श्री जितेंद्र सिंह कंवर, अवर सचिव (विधान) हिमाचल प्रदेश विधान सभा

कर्नाटक	श्रीमती एम.के. विशालाक्षी सचिव, कर्नाटक विधान सभा	श्री बी.एस महालिंगेश, निदेशक, कर्नाटक विधान सभा
मध्य प्रदेश	श्री संजय गुप्ता, भा.प्र.से., श्रम आयुक्त, विधान सभा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री भगवतदीन सिंह परस्ते, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, विधान सभा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
महाराष्ट्र	श्री जितेंद्र भोले, सचिव (१) प्रभारी, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	1. श्री ऋतुराज, ज. कुडतरकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय 2. श्रीमती पूनम हे. ढगे, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय
राजस्थान	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा	श्री सुरेश चंद पारीक, सहायक सचिव [सामान्य] राजस्थान विधान सभा
तेलंगाना	श्री चे उपेन्द्र रेड्डी, संयुक्त सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल	श्री ए सुधाकर, सहायक सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल
उत्तर प्रदेश	श्री बृज भूषण दुबे, विशेष सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	श्री राम औतार सिंह, संयुक्त सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
उत्तराखंड	श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी, संयुक्त सचिव, उत्तराखंड विधान सभा	श्री मयंक सिंघल, वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी, उत्तराखंड विधान सभा
पश्चिम बंगाल	श्री सुकुमार रे, प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव- सह-समिति अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधान सभा
ओडिशा	श्री अबनीकांत पटनायक, भा.प्र.से., सरकार के अपर सचिव, इस्पात एवं खान विभाग	श्री बिद्याधर माझी, उप सचिव, ओडिशा विधान सभा

आदेश से,



(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

M. R. PARKAR,
Deputy Secretary and Joint
Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक : बीआयई-२०२४ / प्र. क्र. ८३/२४/३३
सामान्य प्रशासन विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक ,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.—

- (१) सचिव (१) प्रभारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
- (२) उप सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
- (३) निवडनस्ती.

योगेश गोसावी,
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.